

M/MIG/3Y-SC-अनर्गल कारखाने गंगप्रवड में, चीवडा
से करार होमातक सड़क निर्माण कार्य एवं पांचवर्षीय
अनुसंधान कार्य।

Schedule XLV-Form No. 134

करारनामा की संख्या-112/SBD/2021-22.

करारनामा की राशि-254,2068/.

कार्य प्रारंभ करने की तिथि-30.11.2021. **DIVISION**

कार्य पूर्ण करने की तिथि-29.11.2022.

संवेष्टक-चंद्रन कुमार सिंह. **SUB-DIVISION**

MEASUREMENT BOOK

मापी पुस्तक की संख्या-1122/2021-22.

प्रमाणित किया जाता है कि इस
मापी फुस्त में उचित रूप से पन्ने हैं
जो श्री चन्द्र शेखर सिंह सहायक अति
ग्रामीण कार्य विभाग कार्य इनपर
प्रमंडल फारविसगंज के नाम से निर्गत
किया जाता है

600
30/11/21

कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य प्रमंडल फारविसगंज

20/11/21

34/11/21

Sch. XLV - Form No. 134

C.T. 223, 36, 132 DIVISION
M.T. 30, 5, 336 SUB-DIVISION

Measurement Book

No. 1122—
2021-22

Name of officer _____

Date of first entry _____

Date of last entry _____

Name of Work-

Situation of Work-

Agency by which work is executed-

Date of Measurement-

No. and date of agreement

(These four lines should be repeated at the commencement of the measurement relating to each work)

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
N/W - Const. of Road from Ghimaha to Sardar Tola.					
Name of Contractor:- Chandan Kumar Singh.					
Agreement No - 112/SBD/mmy					
				202-22	
Const. cut - 223.367321m					
Moist cut - 30.753312m					
Total = 254.120682m					
Rate of Agreement - 5.36 x B.W					
Date of Commencement - 30/11/2021					
Time of Completion - 29/11/2022					
measured by					
BOX-cutment					
(2.0m x 1.0m)					
$\frac{1}{27}$ Plv B/W in excavation					
do all side					
Box cutment - 1x 6x 2.5 x 0.6 = 9					
Cut-off wall - 2x 2.5 x 1.3 x 1.8 = 11.7					
4/mam - 4x 3.25 x 3.4 x 1.8 = 79.56					
				Total =	100.26m
measured same end cutment +					100.26m
				Net Total =	200.52m

Continuation

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
Itmm - do - all 561 m					
16.08 m ³ oh P-4 m (7/32)					
② 8517 = 72 / m ³ ———					136965 =
(8/37) S/F/P N/S2 for					
rework in gutter line					
do - all 561 m					
0 = 44 T P-4 m (8/37)					
② 71029 = 60 / T ———					31253 =
(9/35) P/V filter mchrg					
do - all 561 m					
38.54 m ³ P-5 m (9/35)					
② 4032 = 55 / m ³ ———					155414 =
(10/34) P/V Bank filling in					
Abutment & P/wall - ds					
do ———					
64 = 62 m ³ oh P-5 m (10/34)					
② 695 = 13 / m ³ ———					44919 =
(11/36) P/V R.C.C m-25 in					
gutter - line - ds					
4.36 m ³ oh P-5 m (11/36)					
② 8911 = 32 / m ³ ———					38853 = 0
(12/37) P/V mchrg load					
do ———					
1.24 m ³ P-5 m (12/37)					
② 15356 = 56 / m ³ ———					19042 =

Continuation

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
(13) Plr masonry bench mark — do — on 3.20 km or P (6) m (13/1)					
@ 35/83 = 10/100 per km —					112586 =
(14) Plr cherty and crabbing road land — do — on side in 1.24 km or P (6) m (14/2)					
@ 49/739 = 47/1000 per km —					61677 =
(15) Plr adumbrating of limestone — do — on 2.57 m ³ or P (6) m (15/3)					
@ 464 = 11/100 m ³ —					1193 =
(16) Plr adumbrating of limestone — do — on 70.29 m ³ or P (6) m (16/4)					
@ 536 = 28/100 m ³ —					37695 =
(17) Liner. of embankment — do — on cut width 100 m — 3697.34 m ³ as per grab e/w sheet P (9) @ 155 = 69/100 =					575565 =
(18) Liner. of g.s. cut — do — 2511 = 10 m ³ or P (9) m (18/10)					
@ 3964 = 45/100 m ³ —					9954734 =
Continuation Total =					12349000 =

Continuation